

























English:

Do the given sheet.

English
Assessment-1
Topic-Articles
Use of Articles-A/An

A / An

					
cake	ice cream	banana	apple	orange	sandwich
					
sweet	chicken	egg	hamburger	elephant	cat

1	A cake		8	
2	_____		9	
3	_____		10	
4	_____		11	
5	_____		12	
6	_____			
7	_____			

Maths:

Watch the video carefully.

<https://youtu.be/qINNVCTL1ng>

Task : Learn and write table of 2 in notebook.

Hindi:

Watch the video carefully and read the given sheet.

<https://youtu.be/vXqmyWvrclw>

देखो, पढ़ो और समझो—

छ

छः

न म

नमः

द ख


दुःखी

पढ़ो—

अतः दुःख फलतः शनैः शनैः परिणामतः

पढ़ो और सुनाओ—

सुबह छः बजे उठो। पुनः पुनः भूल मत करो। किसी को दुःख मत दो। जो कुछ कहना है, निःसंकोच कहो। झूठ बोलने का दुःसाहस मत करो। कोई भी काम शनैः शनैः करने से पूरा हो जाता है। अतः पुनः पुनः कोशिश करो।



Task : अः की मात्रा के पाँच शब्द और दो वाक्य लिखे।

UOI: Watch the video carefully on healthy lifestyle.

<https://youtu.be/Y8HIFRPU6pM>

Task: Express your understanding on the think sheet about the shift in your daily routine after learning about balanced choices in daily routine in the theme 'Who we Are'

THINK SHEET	
Earlier I used to think..	Now I think.....
<p>Help box-junk food is good for health,exercising everyday is not important,taking bath daily is not necessary,junk food should be avoided as it's unhealthy,exercising daily is necessary,eating fruits and vegetables is good for health,it is necessary to take bath daily,sleeping early and getting up early is not important,eating fruits and vegetables is not important,sleeping early and getting up early maintains our daily routine.</p>	

Art :

The Third element of Art is colours , Click on the link given below and watch the video carefully based on primary colour.

<https://youtu.be/L6z7x0v-d04>

Task : Practice anyone object/article of each primary colour for example red as apple.

Note: All work to be done in notebooks.

P.E :

Watch the video carefully.

https://m.youtube.com/watch?v=ISShUhU_Jv8

Task : Do the activity.

Dance : Watch the video carefully.

<https://youtu.be/9HWvG60GEIg>

Task : Write how dance helps you to be fit and healthy on a mind map and also show your favorite zumba movements(record a 2/3mins video and share it with us).

Criteria :

Knowledgeable

Rhythmic movements.

Good dance posture.

Performed with Confidence.